#### LADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED

CIN: L90009DL1993PLC123728

Registered Office: House No 503/12 Main Bazar Sabzi Mandi Delhi 110007 Email id- ettsecretarial@gmail.com Mobile No. +91 9833522318

January 04, 2025

To
The Manager
Listing Department:
Bombay Stock Exchange Ltd,
Mumbai.

Reference: ISIN- INE546I01017; Scrip Code- 537707; Symbol- ETT

Dear Sir/Ma'am,

Subject:Submission of newspaper publication of Postal Ballot Notice & Remote e-voting intimation under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to above, we hereby inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations, 2015"), Postal Ballot Notice & Remote e-voting intimation has been published by the Company in **04th January**, **2025** editions of "**Financial Express**" (English) and the "**The Jansatta**" (Hindi).

The relevant copies of the said newspapers are enclosed herewith.

Kindly take the same on record.

Thank you,

**Yours Faithfully** 

For, LADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED (Formerly known as ETT Limited)

AFSANA MIROSE KHERANI MANAGING DIRECTOR DIN: 09604693 **FINANCIAL EXPRESS** 

In the matter of 12R CONSULTING PRIVATE LIMITED (CIN: U74999HR2015PTC055515) having its Registered Office at Plot No. 430, Sector-40, Gurgaon, Haryana-122001

.Applicant Company / Petitioner **NOTICE** is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Friday, 29th November, 2024 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to the "State of Telangana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

Plot No. 430, Sector-40, Gurgaon, Haryana-122001 For & on behalf of **12R CONSULTING PRIVATE LIMITED** 

KRISHNA NISTALA VENKATA

SMFG SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

POSSESSION NOTICE (For Immevable Property)

(Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Compan

Limited (formerly Fullerton India Credit Company Limited), Having its registered office

at Commerzone IT Park, Tower B. 1st Floor, No.111, Poonamallee Road, Porur, Chennai

Tamil Nadu-600095 and corporate office at MAKER MAXITY, 10th, Floor Office No. 101

102 & 103, 2,North Ave, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra -

400051, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under

Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

issued Demand Notice dated 17.10.2024 calling upon the borrower(s) (1) ABHISHEK

CHANDRA, (2) ASHA RANI, (3) NITASHA under Loan Account Number (s)

173021310670306 & 173021310748672 to repay the amount mentioned in the notice

being Rs. 47,56,057/- [RUPEES FORTY SEVEN LAKHS FIFTY SIX THOUSAND AND

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower(s) and the public in general that undersigned has taken symbolic possession of

the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sut

section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement)

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal wit

the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG

India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Company Limited) for an

amount of Rs. 47,56,057/- [RUPEES FORTY SEVEN LAKHS FIFTY SIX THOUSAND AND

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The previous notice(s

under section 13(4) of SARFAESI Act 2002 (issued if any at earlier occasion) in respect t

Description Of The Immovable Property: ALL THAT PIEACE AND PARCEL OF PROPERTY

BEARING DDA LIG FLAT NO. 299-B, ON FIRST FLOOR IN BLOCK-C-4B, PKT. 13, SITUATED

SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

SD/-, Authorised Officer

I. M/s Braham Dev Suresh Kumar, (i) House No 243/3, Pusp Vihar Colony, Modipuram, Meerut-U.P. 250110 (ii) Govind Nagar, Kotdwar, Uttrakhand-246149

East- (60'-0") House of Smt. Meena W/o Sh. Yogesh Kumar

Rs. 49,46,000/- (Rupees Forty Nine Lakh Forty Six Thousand Only)

Rs. 4,94,600/- (Rupees Four Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred Only)

Bidders are advised to visit the website (https://baanknet.com) of our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status and EMD status, please email to support.baanknet@psballiance.com and for EMD status

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://baanknet.com and for clarifications related to this portal, please contact

**QR Codes** 

PSB Alliance Pvt. Ltd. Contact No. 8291220220. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://baanknet.com

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the

Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank, Meerut Cantt. Branch, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever

there is" on 12.02.2025 for recovery of Rs. 7,39,51,647.00 (Rupees Seven Crore Thirty Nine Lakh Fifty One Thousand Six Hundred and forty Seven Only) as on 03.01.2025 due to the Indian

Indian Bank

3. Mr. Lokesh Sharma (Partner) S/o Late Sh. Om Dutt Sharma, House No 243/3, Pusp Vihar Colony, Modipuram, Meerut-U.P. 250110

4. Mrs. Suchismita Sharma (Guarantor) W/o Sh. Lokesh Sharma, House No 243/3, Pusp Vihar Colony, Modipuram, Meerut-U.P. 250110

Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only)

ALLAHABAD

Bank, SAM Branch Delhi, Secured Creditor with further interest, costs, other charges and expenses thereon. from:

2. Mr. Amit Agarwal (Partner) S/o Late Sh. Suresh Kumar Agarwal, Govind Nagar, Kotdwar, Uttrakhand-246149

The specific details of the property intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

Boundaries of the property:

North- (22'-6") 30' wide Road

Not known to Bank

IDIBA01582BDSK01

Date and time of e-auction at the 12.02.2025 from 10:00 AM to 4:00 PM

the Secured Debt(s) and/or Secured Asset(s) herein above may be deemed withdrawn.

FIFTY SEVEN ONLY] within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Rules, 2002 on this 02nd Day of January in the year 2025.

FIFTY SEVEN ONLY] and interest thereon.

ATJANAKPURI, NEW DELHI. - 11058

Place: New Delhi. Date: 04.01.2025

इंडियन बैंक

🦲 इलाहाबाद

Detailed description of the Property

**Encumbrances on property if any** 

platform of e-auction Service Provider

please contact support.ebkray@psballiance.com.

Date: 04.01.2025, Place: New Delhi

**Bank Website** 

**Reserve Price** 

**EMD** Amount

Property ID

**Bid incremental amount** 

https://baanknet.com

(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity.

**Date**: 03.01.2025 Place : Gurgaon

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED CAPITAL Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362.266 : 12th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Nr. Hub Mall, Goregaon (E), Mumbai-400 063, Maharashtra

DEMAND NOTICE UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES" The undersigned being the Authorized officer of Aditya Birla Finance Limited (ABFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to ABFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to ABFL by the said Borrower's respectively.

i i	Name and Address of the Borrower(s)	Date & NPA Date	Description of Immovable Property	
Control of the contro	M/s. Tulsi Ram Babu Ram    Mrs. Renu Somani (Legal Heir & Authorised Representative Of Late Mr. Rakesh Somani)    Ms. Vanshika Somani (Legal Heir & Authorised Representative of Late Mr. Rakesh Somani)	17.12.2024 & 03.10.2024	All That Piece & Parcel of The Built Upground Floor Portion of The Property No. 274-A, Measuring Area 76 Sq. Yds. (i. e. Land	
4. Ms. Gauri Somani (Legal Heir & Authorised Representative of Late Mr. Rakesh Somani) 5. Mrs. Renu Somani, W/o. Mr. Rakesh Somani Add. 1 : 3A, S Ashram, Bela Road New Delhi- 110 054 • Mob. No. : 99584 66453. • E-mail No. : rakeshsomani997@gmail.com; Add. 2 : 274-A, Shiv Kalan,	Total Outstanding Dues Amount	Constructed Plinth Area 63.54 Sq. Mtrs.) Consisting of Three Rooms Set Therein Upto The Extent of Ceiling Level With Common Stairs, Passage, Entrance & Parking With Rights to Install / Maintain Water Tank & TV		
	Mandir Marg Ram Nagar, Krishna Nagar, New Delhi-110 051; Add. 2: 274-A, Shiv Kalan, Mandir Marg, Street No6, Ram Nagar, Krishna Nagar, New Delhi-110 051 •Mob. No.: 9650332509 Loan Account No.: ABNDSTS000000777381	₹ 39,51,753/- as on 17.12.2024	Antenna On The Roof of The To Floor Situated At Abadi of Ram Naga In The Area of Village : Khureji Khas Illaqa Shahdara, Delhi-51	

With further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fall to make payment to ABFL as aforesaid, then ABFL shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Lega Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of ABFL. That please note that this is a final notice under Sec. 13(2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that ABFL shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility & costs.

Place : Delhi Authorised Officer. ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED Date: 04.01.2025

> OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)** 1st Floor SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also) **DEMAND NOTICE**

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO

THE INCOME TAX ACT, 1961. RC/539/2023 PUNJAB NATIONAL BANK Date 03.01.2025

Versus M/s DHANWANTRI FOODS INDUSTRIES

(CD 1) M/s Dhanwantri Foods Industries, through its Proprietor Sh. Ravinder Kumar

S/o Sh. Om Parkash R/o Khasra No. 173, Bhillanwali Sai Road, Baddi, District Solan, (CD 2) Sh. Ravinder Kumar S/o Sh. Om Parkash R/o Flat No. 152/117, Sector 15.

Rohini, New Delhi Also at: House No. 218, Near Post Office, VPO Badli. This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed

by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) in OA/1785/2017 an amount of Rs. 54,91,127/- (Rupees Fifty Four Lakhs Ninety One Thousands One Hundred Twenty Seven Only) along with pendentellite and future interest @ 10% Simple Interest Yearly w.e.f. 28/03/2014 till realization and costs of Rs. 115005/- (Rupees One Lakhs Fifteen Thousands Five Only) has become due against you (Jointly and severally/ Fully/Limited).

You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice. failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under. 3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or

before the next date of hearing. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 26/03/2025 at 10:30 a.m.

for further proceedings.

5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay: (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of

**Stressed Asset Management Branch** 

Allahabad Bank Building, 1st Floor, 17, Parliament Street

New Delhi-110001 Phone: 011-23742302

**APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8(6)]** 

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

West-(60'-0") House of Sh. Trilok Chand Saini

South- (22'-6") Modi Colony

the certificate / execution proceedings. (b) All costs, charges & expenses incurred in respect of the service of this notice & warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 03/01/2025

Recovery Officer

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)** 

FORM NO. 1

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW** (Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh)

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow - 226007 DRC No. 312/2023/LKO.

NOTICE UNDER RULE 2 OF THE SECOND SCHEDULE OF INCOME TAX ACT. 1961, READ WITH SECTION 29 OF THE RDDB & FI ACT, 1993 Punjab National Bank Vs. Smt. Meenakshi Singh & Ors.

J.D.No.1 Smt. Meenakshi Singh W/o Shri Sunil Kumar Saw, R/o F-3/758B, Sector-5, Vaishali Ghaziabad, U.P.-201010

J.D.No.2 Shri Sunil Kumar Saw, S/o Shri Sarwan Saw, R/o F-3/758 B, Sector-5, Vaishali Ghaziabad, U.P.-201010 J.D.No.3 M/s Manju J. Homes India Ltd.

Through its Director Shri Akshay Jain, Situated at C-294, Vivek Vihar, Delhi 2nd Address: C-10, Ramprastha, Ghaziabad.

J.D.No.4 M/s Idea Builders Pvt. Ltd. Corporate Address: D-248, Street No. 10, Laxmi Nagar, Delhi. 2nd Address: Site Office: Red Apple Residency, Khasra No. 998, Raj Nagar

Extension. Ghazibad This is to notify that a sum of Rs.27,08,212.00 (Rupees Twenty Seven Lakh Eight Thousand Two Hundred Twelve Only) along with the interest @8.00% per annum with monthly rest from the date of filing of the Original Application i.e. 07.09.2019 till the loan fully liquidated jointly and severally has become due from you as per the certificate bearing

no. 312/2023 LKO dated 07.09.2022 in O.A. No. 1329/2019, passed against you by DRT, 1. You are hereby directed to pay the sum within 15 days of this Notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and

Financial Institution Act, 1993. 2. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of assets on or before

3. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 24.02.2025 at 11.00 A.M. Details of cost:

Rs. 30,000.00 Application Fee Advocate Fee NIL **Publication charges** NIL Misc. Expenses NIL Clerical Charges NIL

Give under my hand and Seal on this 21.11.2024.

Recovery Officer-II **Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

FORM No. 1

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW** (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226007

DRC No. 18/2022/R.O.II. NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT. 1961, READ WITH SECTION 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND

**BANKRUPTCY ACT 1993. PUNJAB NATIONAL BANK** . C.H. Bank

Branch Office: G.T. Road Ghaziabad (U.P.) Versus

**AKHILESH KUMAR & AVNISH KUMAR & ORS** . Credit Debtors.

1. SHRIAKHILESH KUMAR S/o Shri Narendra Singh

R/o C-84, First Floor, Swarnajayanti Puram Distt. Ghaziabad - 201001 2nd Address: Village - Poothari PS - Niwari, Ghaziabad - 201004

3rd Address: R/o C-87, IInd Floor, Swarnajayanti Puram Distt. Ghaziabad-201002 SHIR AVNISH KUMAR S/O Shri Karan Singh R/o G-31, MCD, Flats Gulabi Bagh, Delhi . Certificate Debtors

This is to notify that a sum of Rs.27,63,826.07 (RUPEES TWENTY SEVEN LACS SIXTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY SIX AND PAISE SEVEN ONLY (Rs.18,20,960.19/- in Housing Loan - I) and (Rs.7,67,281.73/- in Housing Loan - II) 8 (Rs. 1,75,584.15 in ODHL) together pendentelite and future interest @9.00% per annum from the date of filing of the Original Application i.e. 16.03.2021 till the loan is fully liquidated and cost succeeds and is hereby allowed exparte against you the addressees as per order dated 06/10/2021 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 202/2021, titled "PUNJAB NATIONAL BANK Vs. AKHILESH KUMAR & AVNISH KUMAR & ORS". You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of receipt of this notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of

Debts Due to Bank and Financial Institution Act, 1993. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of assets on or before

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 18/07/2025 at 11.00 A.M. Details of cost:

Rs. 1,435/-

Application Fee Rs 30,005/-Rs. 14,351/-Advocate Fee **Publication charges** Miscellaneous Expenses Rs. 7,296/-

Give under my hand and seal on this 30th day of December' 2024

Recovery Officer-II **Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

**GENERAL NOTICE** 

(PURSUANT TO RULE 17(4) OF LLP RULES, 2009) Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Limited Liability Partnership from one state to another

Notice is hereby given to the General Public that the Next Biz Network Media LLP

proposes to make an application to the Registrar as per Section 13 of the LLP Act, 2008 and Rule 17 of LLP Rules, 2009 seeking confirmation of Change in the Registered Office of the LLP in terms of the consent of all partners and secured creditors from the State of 'National Capital Territory (NCT) of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the LLP may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar of Companies, Delhi at the address, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant LLP i.e. Next Biz Network Media LLP at its

registered office at the address 'H.No. 114, Block No. 8, Geeta Colony, East Delhi,

Delhi-110031'.

Date: 03/01/2025

Place: New Delhi

For and on behalf of Next Biz Network Media LLP Tanya Gandhi **Designated Partner** 

### LADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED (Formerly known as ETT Limited)

CIN: L90009DL1993PLC123728 Regd. Office: House No. 503/12, Main Bazar Sabzi Mandi, Delhi-110007

E-mail: ettsecretarial@gmail.com, Mobile: +91 9833522318

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT Members are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 and

other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act'), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA Circulars', the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice on Friday, January 03, 2025 for seeking approval of members for the resolutions set out in the notice, only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent (Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.) / Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, December 27, 2024 ('Cut-off date').

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences from 9:00 a.m. (IST) on Saturday, January, 04, 2025 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, February 02, 2025 (till 5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system. Members are further requested to take note that once the vote on a

resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. Notice shall be available on the website of the company at www.beetalfinancial.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information The Board of Directors have appointed M/s. Vishakha Agrawal and

Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner. All grievances connected with the facility for voting by electronic

means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or Call on Toll Free No. at 1800 22 55 33 For Laddu Gopal Online Services Limited

(Formerly known as ETT Limited) Afsana Mirose Kherani Managing Director

DIN: 09604693 Date: 04.01.2025

Place: DELHI

"IMPORTANT"

Clearkage

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore

before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any

इंडियन बैंक

E- Auction

recommend that readers make necessary inquiries

manner whatsoever.

🙇 इलाहाबाद

the table below.

SI. No. Locker No. | Customer Name

SI, No. Locker No. Customer Name

SI, No. Locker No. Customer Name

SI. No. Locker No. Customer Name

GG00608 HANS RAJ

SI. No. Locker No. Customer Name

SI. No. Locker No. Customer Name

SI. No. Locker No. Customer Name

AG00031 GINASHRESTHA

AC00062 SATYA GAUTAM

AW00779 O.D. SHARMA

AA00393 PUSHPA SHARMA

Date: 04.01.2025, Place: New Delhi

AI00064 PRAVEEN MALHOTRA

AA00519M1 ANIL KUMAR

JA00239 SNEH LATA JAIN

AH00221 ARJUN DEV & NAVI DEVI

AH00338 SHILPI SABHARWAL

Indian Bank ALLAHABAD Branch: Shamsabad, Agra, Contact: 7983381350

Sale Notice

07.02.2023

17,39,946/-

as on Dt. 27.12.2024

expenses thereon

29.06.2024

24,98,206/-

Dt. 27.12.2024

+ intrest & other

expenses thereon

[Appendix IV-A (See Provison to Rule 8(6)] Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E - Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provison to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/ies mortgaged/charged to the Indian Bank, Secured Creditor, the Physical/Constructive(Symbolic) Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", on below mentioned date, for the recovery of dues to the Indian Bank, Secured Creditor from the following Borrower (s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) of the respective property/ies are furnished below.

Name of Borrower/ Mortgagor/Guarantor

**Description of Mortgaged** Property

Reserve price (Rs.) Demand Notice EMD (Rs.) Date **Outstanding Dues** Amount (Rs.) Last Date and Time for submission of EMD amount is: 13.02.2025 upto 4:00 PM

1,82,400/-

10,000/-

Symbolic

Possession

CIRCLE OFFICE-SOUTH DELHI, PLANNING AND DEVELOPMENT DEPT. UGF. BHIKAJI CAMA PLACE

BRANCH NAME- 060200-DELHI NEW, OKHLA NSIC

BRANCH NAME- 152900-DELHI NEW, NEHRU PLACE

**BRANCH NAME- 309600-DELHI NEW, EAST OF KAILASH** 

BRANCH NAME-146700-DELHI NEW GREATER KALASH 2

BRANCH NAME- 016000-DELHI NEW, NIZAMUDIN (WEST)

BRANCH NAME-015900-DELHI NEW, GREEN PARK

BRANCH NAME- 061200-DELHI NEW, NAUROJI NAGAR

RANCH NAME- 153600-NEW DELHI KOTLA MUBARKPUR

**BRANCH NAME- 657900-MEHRAULI** 

BG01266 RAMANAGGARWAL & SUNITA AGGARWAL

AG00613 BIMLAMALHOTRA&ASHOK MALHOTRA

AH00531 VIDYA DEVI & MADHU THAKUR

AG00595 ARUNA MITTAL, ANIL K MITTAL & SHASHANK MANOHAR

AB00029 BHASKAR PRASAD & NIRUPAMA GUPTA

AC00200 KAILASH C. SHARMA & UMA SHARMA

SI. No. Locker No. Customer Name

1. BMO1906 SANTOSHKATYAL

AE01060 ASHAGUPTA

AF00412 FAISALHAIDER

AA01238 LALITAHUJA

Date of E- Auction 14.02.2025 between 10:00 AM to 04:00 PM Borrower- M/s Priyanka Collection (Prop.- Afsana Begum), Shop No- LG-12 Upper Ground Floor at Hari Nagar 18,24,000/-Add.- Shop no LG-12 Hari Nagar, Shaheed Nagar, Rajpur Rajpur Chungi Tajganj Agra, Area: 18.23 sq mtr. Chungi, Agra, Borrower/Mortgagor- Mrs. Afsana Begum W/o in the name of Mrs. Afsana Begum & Mr. Mohd Mr. Mohd. Hassim, Guarantor/Mortgagor- Mr. Mohd. Hassim, Hassim, Bounded as: East: Exit Street 4ft, West: S/o Mr. Mohd. Salauddeen, Add. of both- E2/1256, Shaheed Shop No- LG-11, North; Exit Street 9ft, South; Nagar, Taigani, Agra, Guarantor- Mr. Sharif S/o Mr. Nawab, Property of Naemuddeen Add.- 28 Midhakur, Dist. Agra Property ID: IDIB6964PRIYANKA

Borrower- 1) M/s Alvi Cement & Hardware (Prop.- Mubin LIG House no- 11 (Ground Floor) Located at T 20,33,000/ Khan), Add.- Shop Near JRJ Garden, LIG- 15 Tajnagari Phase- Nagari Phase -1 Yojana Agra, Area: 69.13 sq mtr. 2,03,300/-1 Agra, 2) Mr. Mubin Khan S/o Mr. Barkat Ali, Mortgager/ in the name of Mrs. Shakeela Begum, Bounded Guarantor- Mrs. Shakeela Begum W/o Mr. Mubin Khan, Add. as: East: LIG House No. 13, West: LIG House 10,000/of both- H. No. LIG- 15 Tajnagari Phase-1 Tajganaj Agra, No. 9 & common stairs, North: 30 ft wide road, Guarantor- Mr. Kamaruddin S/o Munshi, Add.- H. No. 86 South: MMIG Houses Symbolic Possession Tajnagari Phase -1 Tajganaj Agra Bidders are advised to visit the website (https://www.ebkray.in) of our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to

participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220. For Registration status and for EMD status please email to support.ebkray@psballiance.com.For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://www.ebkray.in and for clarifications related to this portal, please contact PSB Alliance Pvt. Ltd, Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://www.ebkray.in

BREAK OPEN NOTICE FOR LOCKERS The Punjab National Bank had rented Safe Deposit Vaults (Lockers) through its different Branches to the respective locker hirers as mentioned in

The rent has not been paid by hirers for more than three years and there are arrears of rent against them. The Bank has issued three notices to the

Date: 04.01.2025 Place: Agra

respective locker hirers for payment of overdue locker rent in arrear, but the rent amount has still not been deposited.

BRANCH NAME- 112000-DELHI NEW, ECE HOUSE

AD00317 KIRAN MALHOTRA & MRS. ADRASH SHARMA

BRANCH NAME- 309000-NEW DELHI, JANGPURA EXT

BRANCH NAME- 017600-DELHI NEW, SOUTH EXTN. PART-1

BRANCH NAME- 150900-DELHI NEW, MAHARANI BAGH

BRANCH NAME- 309300-DELHI, MEHRAULI ROAD, HAUZ KHAS

BRANCH NAME- 150400-DELHI NEW, CHIRAG DELHI

BRANCH NAME- 013300-DELHI NEW, TROPICAL BUILDING

AA00843M1 SAURABHANAND & PAWANANAN

AA00353 MANISHI SAPRA & ROMESH SAPRA

www.indianbank.co.in





**Photo of Property** 

House No.243/2, situated at Khasra No.37, Pushp Vihar Colony, Mukarrabpur Palhera, Roorkee Road Meerut, admeasuring 125.67

sg.mtrs. in name of Mr. Lokesh Sharma S/o Late Om Dutt Sharma and Mrs. Suchismita W/O Mr. Lokesh Sharma



**AUTHORISED OFFICER, INDIAN BANK** 

Contact Person: 1. Rajendra Prasad Vishwakarma, Mob. No. 7011796875. 2. Navneet Kumar Garg, Mob. No. 7500400777



POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Rule 8(1))

Whereas, been the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The borrower having

failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002, on the borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. (a) Name of Branch (b) Name of Account (a) Demand notice Date Outstanding as on Description of property Mortgage No. (c) Name of Borrowers/Guarantor/ (b) Symbolic date of Demand notice Mortgagor & Address Possession Date

Kumar Rastogi.

Branch: Kanker Khera (072900) M/s Daurala Construction work, Sh. Vivek Ahlawat S/o Sh. Chandra Veer Singh (Proprietor), Add: D-137, Saket, Meerut U.P. 250001. Sh. Vivek Ahlawat S/o Sh. Chandra Veer Singh (Borrower), Add: D-137, Saket, Meerut U.P. 250001. Sh. Chandra Veer Singh S/o Sh. Sumer Singh (Guarantor), Add : D-137, Saket, Meerut U.P. 250001, Smt Usha Devi W/o Sh. Chandra Veer Singh (Guarantor), Add : D-137, Saket, Meerut U.P. 250001. M/s Janshakti Cold Storage Pvt Ltd (Guarantor), Add: Khasra no. 1733 G (Old No. 116/3) are as follow. East. Road, West. House of Sushill situated at Village and Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut U.P. 250221. Date: 03.01.2025 Place: Meerut

Security Bond: Residential House situated at Northern Part of No. D-137 having Municipal No. 122/A. Saket, Meerut, U.P. Measuring Area 463.14 Sq. Mtrs. Property n the Ownership of Sh. Chander Veer Singh S/o Sh. Sumer Singh. Boundaries of which are as follow: East: Road. West: House no.

24.10.2024 02.01.2025 Symbolic Possession

Rs. 3.81,01,972.06 as on 30.09,2024 30.09.2024

with further interest w.e.f 01.10.2024 deduction of recovery if any after

New Delhi

The notice is hereby given to the locker hirers that if the rent in above mentioned lockers is not received by the Bank within 3 months of this notice, then

the lockers will be broken open at the risk and cost of the respective locker hirer in accordance with clauses of the rent deed and the Bank will realize its

dues by the public or private sale of a part or the whole of the contents of the locker. Any amount and or contents of the locker remaining after the

Bank's dues have been satisfied will be held by the Bank at the entire risk, responsibility and cost of the respective locker hirer. In case, the proceeds of such sale be insufficient to recover the Bank's dues, the locker hirer will be liable for the deficiency.

**CO: South Delhi, Punjab National Bank** 

financialexp.epapr.in

Authorised Officer, Punjab National Bank

तिथः 3.1.2025

स्थानः नई दिल्ली

#### विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः- प्लॉट नंबर 59 और 60-23, 22वां क्रॉस, 29वां मेन, बीटीएम लेआउट स्टेज 2, बेंगलुरू-560076 www.vistaarfinance.com

परिशिष्ट । । | नियम 8 (1) देखें। कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे इस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-10-2024 को डिमांड नीटिस जारी कर उधारकर्ता (ओं) श्री सुमन चंद, श्रीमती मंजू सुमन चंद और श्री विश्वास सुमन चंद को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 23,95,132 / - (रुपये तेईस लाख पद्मानवे इजार एक सौ बतीस रुपये मात्र) 05-10-2024 तक प्लस मविष्य के ब्याज और शुरूक और लागत आदि ऋण खाता संख्या 0255 एसबीएमएल 00474 के विरुद्ध वास्तविक वसूली तक या उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान

ऋणी द्वारा राशि यापस करने में असफल रहने के कारण, ऋणी और आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की घारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 जनवरी वर्ष 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से तथारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की वेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जिसकी राशि 05-10-2024 तक 23,95,132/- रुपये (तेईस लाख पंचानवे हजार एक सौ बत्तीस रुपये मात्र) होगी, साथ ही वास्तविक वसूली तक भविष्य का ब्याज और शुल्क और लागत आदि भी। ऋण खाता संख्या 0255एसबीएमएल00474 के विरुद्ध या वास्तविक भूगतान तक भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क आदि भी प्रभार के अधीन होगा

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपतियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची-एः [सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण]ः

अचल संपत्ति का वह सारा दुकड़ा और पार्सल, मृतल पर निजी क्रमांक 3 वाली एक निर्मित दुकान, छत को अधिकार के बिना 10.72 वर्ग मीटर का ढका हुआ क्षेत्र, संपत्ति क्रमांक एम-161 का हिस्सा, रेक्ट संख्या 58 किला नंबर 21 से बाहर, खुरेजी खास गाँव, आबादी जगत राम पार्क, लक्ष्मी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-92 के क्षेत्र में रिथत, श्रीमती मंजू पत्नी श्री सुमन चंद के स्वामित्व में, उप रजिस्ट्रार-टप्प । प्रीत विहार दिल्ली के पास दस्तावेज संख्या 2866 के अनुसार पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1291 के पुष्ठ संख्या 42-53 पर दिनांक 11/05/2018 को पंजीकृत और संपत्ति की

संख्या २, दक्षिण संपत्ति संख्या एम-1621 दिनांकः 02-01-2025 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः दिल्ली विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

अनुसूची के अनुसार धिरा हुआ: पूर्व: 30 फीट बीडी सड़क, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति, उत्तर: दुकान

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियन बैंक	8	Indian Bank
K		

▲ इलाहाबाद ALLAHABAD

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट लार्ज ब्रांच, इंडियन बैंक, 73, 7वीं मंजिल, मित्तल चैंबर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

मेल आईडी : armbmumbai@indianbank.co.in; s816@indianbank.co.in;

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के अंतर्गत अचल आस्तियों

की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं जमानतदार (ऋणियों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक/रचनात्मक/प्रतीकात्मक कब्जा भारतीय बैंक, एसएएम शाखा, सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" आधार पर 22.01.2025 को रु. 3,69,86,436.76 (रुपये तीन करोड़ उनहत्तर लाख छियासी हजार चार सौ छत्तीस और छिहत्तर पैसे मात्र) 27.12.2024 के अनुसार, तथा 28.12.2024 से भावी ब्याज और लागत की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो कि इंडियन बैंक, एसएएम लार्ज ब्रांच, सुरक्षित लेनदार को निम्नलिखित की ओर से देय है :-मैसर्स व्हाइट रोज क्रिएशन, प्रोप. श्री अंशुल आह्जा, दुकान नं. 60, व्हाइट रोज क्रिएशन, ग्राउंड फ्लोर,

- सिटी मॉल लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- 400053 मैसर्स व्हाइट रोज क्रिएशन, प्रोप. श्री अंशुल आह्जा, व्हाइट रोज क्रिएशन, ई-43, इंडस्ट्रियल एरिया,
- श्री अंशूल आहुजा (उधारकर्ता / बंधककर्ता), फ्लैट नं. 703, बिलिंडग नंबर 7ए, वर्सीवा फॉर्च्यून सीएचएल,
- लोखंडवाला सर्कल, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई— 400053 श्री अंशुल आहूजा (उधारकर्ता / बंधककर्ता), मकान नं. 757, वार्ड नं. 19, वार्ड नं. 19 के पीछे, आर्य समाज मंदिर के पीछे, मॉडल टाउन पानीपत, हरियाणा— 132103
- श्री अंशुल आहूजा (उधारकर्ता / बंधककर्ता), मकान नंबर 762, वार्ड नं. 19, आर्य समाज मंदिर के पीछे, ई-नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री के लिए लाई जाने वाली संपत्ति का विशिष्ट विवरण इस प्रकार नीचे

संपत्ति -1 - बंधककृत परिसंपत्तियों के मदवार विस्तृत विवरण दुकान / संपत्ति का समतामूलक बंधक मापन 162 वर्ग गज है, जो दुकान / संपत्ति संख्या 1133-1135 में से 162 / 647वाँ हिस्सा है, जिसकी माप 647 वर्ग गज है, जो वार्ड क्रमांक 7, रेलवे रोड के पीछे, देवीलाल कॉम्प्लेक्स लेन, पानीपत, हरियाणा– 132103 में स्थित है, जिसका स्वामित्व श्री अंशूल आहुजा के पास है, जो निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व : कस्तूरी लाल की संपत्ति पर अथवा उसकी ओर, पश्चिम : संपत्ति संख्या 1133-1135 के हिस्से पर अथवा उसकी ओर, उत्तर : किसान पंप स्टोर की संपत्ति पर अथवा उसकी ओर, दक्षिण : सडक के

पास, क्षेत्रफल 1458 वर्ग फीट (162 वर्ग गज)

आरक्षित मूल्य लाख में	ईएमडी राशि लाख में		बोली वृद्धिशील राशि	संपत्ति आईडी संख्या
্চ. 174.40 লাভ্ৰ	্চ. 17.44 লাভ্ৰ		₹. 1,00,000 / —	IDIB30231370566
कब्जे की स्थिति			भौतिक कब्ज	T
ई—नीलामी की तिथि और समय			22.01.2025 — 11.00 पूर्वाह्न से	4.00 अपराह्न बजे
निरीक्षण की तिथि और समय			15.01.2025 — 03:00 अपराह्न से	1 04:00 अपराह बजे
प्राधिकृत अधिकारी :– श्री दीपक कुमार वैष्णव— 99500—75555				

गेलीदाताओं को ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारी ई नीलामी सेवा प्रदात्री पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.baanknet.com) पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। पंजीकरण स्थिति और ईएमडी स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर ईमेल करें। संपत्ति के विवरण और संपत्ति का चित्र तथा नीलामी के नियमों और शर्तों के लिए कृपया यह देखें https://www.baanknet.com और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए कृपया पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क नं. 8291220220 से संपर्क करें।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे https://www.baanknet.com पर वेबसाइट में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें। प्राधिकृत अधिकारी

दिनाँक : 02/01/2025

#### युको बैंक अंवल कार्यालय : कृष्णा प्लाजा C-2/6, कब्जा सम्बन्धी नोटिस डी-ब्लॉक, गंगानगर, मवाना रोड, मेरह (उ.प.) सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) तथा

सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेंद धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युको बँक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया। जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्तियों का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एव जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन युको बैंक, शास्त्रा को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज के चार्ज के पर्ण भगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। (कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं)

家. 奸.	शाखा, ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण		
1.	श्रीमती सुधि सक्सेना परनी श्री अभिषेक सक्सेना	हंपति के सभी भाग और पार्सेल जिसमें एक आवासीय मकान शामिल, श्रीमती सुधि सक्सेना पत्नी श्री अभिषेक सक्सेना के नाम, क्षेत्रफल 17.07 वर्ग मीटर, रिधत मकान नं, 36, मीहल्ला खकरा पीलीभीत, उत्तर प्रदेश— 262001, श्रीमती सुधि सक्सेना पत्नी श्री अभिषेक सक्सेन हे नाम, पर उप पंजीयक, पीलीभीत के कार्यालय में बुक नं. 1, जिल्द 9514, पृष्ठ—345 से 364, कम नं. 2894 दिनांक: 25—03—2022 पर विधियत पंजीकृत। सीमायें:— उत्तर: सुरेश चंद्र सक्सेना का मकान, दक्षिण: डॉ. अतुल सक्सेना का मकान और 3.96 मीटर चौड़ा रास्ता पूर्व कोतवाली रोड, पश्चिम: दीपक चंद्र सक्सेना का मकान। डेमांड नोटिस दिनांक: 19/09/2024, कब्जे की तिथि: 02/01/2025. ।काया: रुपये 17,88,750.00 प्लस ब्याज और अन्य शुल्क 01.05.2024 तक		
f	देनांक 03.01.202 <b>5</b>	स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक		

कॉपोर्रेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, मांग सूचना किलना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ ( उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ ( १२ ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में. एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भगतान और / या वसुली की तारीख तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

	क्र. सं.	ऋण खाता सं./ कर्जदार( रों )/ सह–कर्जदार( रों )/ गारंटर( रों ) के नाम	कुल बकाया देयताएं ( रु. )	एनपीए तिथि धारा 13(2) सूचना की तिथि एफसीएल तिथि	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
	1	MTCAG22009361 एवं MTCAG24016483 / कपिल गोस्वामी प्रमोद कुमार गोस्वामी/सुमन देवी/हेमलता गोस्वामी	रु.14,33,344.00 (रुपए चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौवालीस मात्र)	09-12-2024 31-12-2024 07-01-2025	अधिकार में, मुस्तफाबाद में स्थित मकान की अचल संपत्ति का समस्त भाग, माप 144.49 वर्ग मीटर, परगना मुस्तफाबाद, तहसील जसराना और जिला फिरोजाबाद-283207, उत्तर प्रदेश सीमाएँ:- पूर्व:- गली पश्चिम:- धर्मेंद्र का मकान उत्तर:- करतार सिंह का मकान दक्षिण:-12' चौड़ी गली
68	2	MTCAG23013195 / मुकेश शर्मा/प्रीति शर्मा	रु.17,44,860.00 (रुपए सत्रह लाख चौवालीस हजार आठ सौ साठ मात्र)	09-12-2024 31-12-2024 07-01-2025	अधिकार में, अचल संपत्ति का समस्त भाग मकान नंबर 112/4 (वर्तमान नंबर 164/1) माप 92.93 वर्ग मीटर, खं. नंबर 196 का हिस्सा, मौजा- नौशहरा, तहसील- शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद-205135, उत्तर प्रदेश सीमाएँ:- <b>पूर्व:</b> - 8' चौड़ा रास्ता <b>पश्चिम:</b> - मकान अन्य <b>उत्तर</b> :- रूपिकशोर का मकान <b>दक्षिण:</b> - रामप्रसाद का मकान

यदि उक्त कर्जदार उपरोक्तानुसार सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल रहेंगे, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के जोखिम पर लागत और परिणाम के संबंध में उपरोक्त प्रतिभृत संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकताओं को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या इसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 04.01.2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,कृते सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, नई दिल्ली बेंच-IV नई दिल्ली

आई ए सं. 5416/2024INCP(IB) सं. 559/ND/2021

यस बैंक लिमिटेड ...वित्तीय ऋणदाता ...कॉर्पोरेट देनदार प्रेसीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और इस मामले में: एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी

आईपीई को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया प्रेसीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में श्री अंकित गोयल के माध्यम से

इस मामले में:

आईपीई के भागीदार आईपीई की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत ...समाधान पेशेवर/आवेदक

प्रवीण कुमार एवं अन्य माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच-IV द्वारा पारित आईए संख्या 5416/2024 के आदेश दिनांक 19 / 12 / 2024 के अनुसार, नीचे उल्लिखित सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तिथि यानी 08 जनवरी 2025 को दोपहर 02.30 बजे माननीय एनसीएलटी, नई बेंच, कोर्ट हॉल IV के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। उक्त प्रतिवादियों का विवरण इस प्रकार है: – अंतरिम आवेदन संख्या - 5416 के 2024

प्रतिनिधि संख्या	पार्टी का नाम	पता
1	प्रवीण कुमार	डी—816, ब्लॉक मंगोल पुरीदिल्ली—110048
2	गणेश चंद्र	एन 608, सेवा नगर लोधी रोड नई दिल्ली—110003
5	सुखविंदर सिंह	सी—5डी / 27बी, जनक पुरी नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110058
6	देवेंद्र गुप्ता	ए—172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087
	, <u>.</u>	इसके अलावा– मार्वल मेंशन, 1 लिंक रोड, 1 लिंक रोड,
		पॉकेट—1 समालखा, दिल्ली—110037
7	सुधा गुप्ता	ए—172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110087
	3 3	इसके अलावा– मार्वल मेंशन, 1 लिंक रोड, 1 लिंक रोड,
		पॉकेट-1 समालखा, दिल्ली-110037
8	प्रतीक गुप्ता	ए—172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087
	Milay Jan	इसके अलावा– मार्वल मेंशन, 1 लिंक रोड, 1 लिंक रोड,
		पॉकेट—1 समालखा, दिल्ली—110037
9	पारस गुप्ता	ए—172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087
	41441 3411	इसके अलावा– मार्वल मेंशन, 1 लिंक रोड, 1 लिंक रोड,
		पॉकेट-1 समालखा, दिल्ली-110037

माननीय एनसीएलटी नई दिल्ली पीठ के समक्ष आपकी उपस्थिति का तत्काल अनुरोध है। दिनांकः 02/01/2025

सीए अंकित गोयल, एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी (रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) के अधिकृत भागीदार प्रेसीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

आईपी पंजीकरण संख्या आईबीबीआई/आईपीई-0002/आईपीए-1/2022-23/50001 ईमेलः – presidium.ibc@gmail.com

## LADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED (Formerly known as ETT Limited)

CIN: L90009DL1993PLC123728 Regd. Office: House No. 503/12, Main Bazar Sabzi Mandi, Delhi-110007 E-mail: ettsecretarial@gmail.com, Mobile: +91 9833522318

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA Circulars', the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice on Friday, January 03, 2025 for seeking approval of members for the resolutions set out in the notice, only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent (Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.) / Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, December 27, 2024 ('Cut-off date').

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences from 9:00 a.m. (IST) on Saturday, January, 04, 2025 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, February 02, 2025 (till 5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system.

Members are further requested to take note that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. Notice shall be available on the website of the company at www.beetalfinancial.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The Board of Directors have appointed M/s. Vishakha Agrawal and Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner. All grievances connected with the facility for voting by electronic

means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or Call on Toll Free No. at 1800 22 55 33. For Laddu Gopal Online Services Limited

(Formerly known as ETT Limited) Afsana Mirose Kherani Managing Director Place : DELHI DIN: 09604693

Date: 04.01.2025

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not confined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated December 04, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Main Board of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for



CHNTRUM

# information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI (ICDR) Regulations"). SIKKO INDUSTRIES LIMITED

SIKKO INDUSTRIES LIMITED bearing Corporate Identification Number was originally incorporated as "Sikko Sprayers Private Limited" on February 08, 2000 under the provisions of Companies Act, 1956 vide certificate of Incorporation issued by Deputy Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli at Ahmedabad. Consequent up on the conversion of our Company into public limited company, the name of our Company was changed to "Sikko Sprayers Limited" vide fresh certificate of incorporation dated March 16, 2010 issued by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Subsequently the name of our company was changed to "Sikko Industries Limited" and Fresh certificate of Incorporation pursuant to change of name was issued by Assistant Registrar of Companies, Gujarat and Dadra Nagar Haveli on March 17, 2010. The Company was then listed and admitted to dealings on the Emerge platform of National Stock Exchange of India Limited (\*NSE') on April 18, 2017. The company was subsequently migrated from the Emerge Platform to the Main Board of the National Stock Exchange (NSE) on October 22, 2021.

Date:- January 03, 2025

Place:- Ahmedabad

Regd. Office: 508, Iscon Eligance, Nr. Jain Temple Nr. Prahladnagar Pick up Stand, Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat, India, 380051.

Email id: compliance@sikkoindia.com, Website: www.sikkoindia.in Telephone no. +91 79 6616 8950 / 51 Contact Person: Mr. Dhruvitkumar Mandliya, Company Secretary and Compliance Officer NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS OF SIKKO INDUSTRIES LIMITED

RIGHT ISSUE EXTENDED: REVISED ACTIVITY SCHEDULE

RIGHT ISSUE OF UPTO 5040000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF SIKKO INDUSTRIES LIMITED ("SIL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF 198.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF | 88.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO | 4,939.20 LAKHS ("THE ISSUE ") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, DECEMBER 06, 2024 (THE "ISSUE"), FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 134 OF THIS LETTER OF OFFER.

ISSUE OPENS ON:

**ISSUE PROGRAMME** LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION\*: THURSDAY, JANUARY 02, 2025

**ISSUE CLOSE ON\*\* TUESDAY, JANUARY 21, 2025** 

**MONDAY, DECEMBER 23, 2024** Simple, Safe, Smart way of making an Application- Make Use of it.

\*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before

making their Application through ASBA. For details "Process of making an Application in this Issue" on page 135 of Letter of Offer. PLEASE NOTE THAT RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT THEIR APPLICATION USING THE ASBA PROCESS ONLY.

ASBA FACILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE. LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform the eligible shareholders of the company that the date of closure of the rights issue, which opened on Monday, December 23, 2024 scheduled to close on Tuesday, January 07, 2025 has now been extended by the company from Tuesday, January 07, 2025 to Tuesday, January 21, 2025, vide the board resolution dated Friday, January 03, 2025.

in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the rights issue. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange or such extended time as permitted by the Stock

ACCORDINGLY, THE LAST DATE OF SUBMISSION OF DULY FILLED IN APPLICATION FORM IS TUESDAY, JANUARY 21.

2024, BEING THE ISSUE CLOSING DATE. ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM:

Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same

depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights equity shares in this issue are advised to furnish the details of their demat account to the registrar to the issue at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e., Friday, Janaury 17, 2025 to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. They may also communicate with Registrar with the helpline number + 91 22 4961 4132 / +91 22 4970 0138 and their email address: newissue@purvashare.com.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE I.E. TUESDAY, JANUARY 21, 2024. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER, AND APPLICATION FORM EXCEPT THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE, RESULTNANT CHANGE IN INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

> For SIKKO INDUSTRIES LIMITED Javantibhai Mohanbhai Kumbhani Managing Director

> > DIN: 00587807

garima advt.

(एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17(4) के अनुपालन में) एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमित दायित्व पार्टनरिशप के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

साधारण सूचना

एतदुद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी पार्टनर्स एवं प्रतिभूत क्रेडीटरों की सहमति के अनुसार एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के अनुसार नेक्स्ट बिज नेटवर्क मीडिया एलएलपी रजिस्ट्रार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय एच. नं. 114, ब्लॉक नं. 8, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली-110031 में आवेदक एलएलपी अर्थात् नेक्स्ट बिज नेटवर्क मीडिया एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पते 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: कृते एवं के लिये

नेक्स्ट बिज नेटवर्क मीडिया एलएलपी

वसूली अधिकारी-।/॥, का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआस्टी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़

मांग सूचना

(तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित है)

ऋण की वसुली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना आरसी/539/2023 तिथि: 03.01.2025

पंजाब नेशनल बैंक

मेसर्स धनवंतरी फूड्स इंडस्ट्रीज

(**सीडी** 1) **मै. धनवंतरी फूड्स इंडस्ट्रीज**, इसके प्रोपराइटर श्री रविंदर कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश के माध्यम से, निवासी खसरा नंबर 173, भिलनवाली साई रोड, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। (**सीडी 2) श्री रविंदर कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश** निवासी फ्लैट नंबर 152/117, सेक्टर 15,

रोहिणी, नई दिल्ली। यहां भी: मकान नंबर 218, पोस्ट ऑफिस के पास, वीपीओ बादली।

यह सुचित करने के लिए है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2) द्वारा पारित आदेश के अनुवर्ती जारी वसली प्रमाण पत्र के अनुसार ओए/1785/2017 में 54,91,127/- रुपये (चौवन लाख इक्यावने हजार एक सौ सत्ताईस रुपये मात्र) जमा वसूली तक 28.03.2014 से पेंडेंटेलाइट और भविष्य का साधारण ब्याज @10% प्रति वर्ष और लागत 115005/- **(केवल एक लाख पन्दह हजार पांच रुपए** ) रुपये आपके (संयुक्त और अलग-अलग/पूर्ण/सीमित) बकाया है।

2. एतदुद्वारा आपको उपरोक्त राशि को मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर वित्तीय संस्थानों के देय ऋण की वसुली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी:-

3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें। 4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 26.03.2025 को पूर्वाह्न 10.30

बजे उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। 5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भूगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

क) निष्पादन कार्यवाही/प्रमाणपत्र की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज में। ख) इस नोटिस की तामील तथा वारंट्स और अन्य प्रक्रिया व सभी अन्य कार्यवाही के संबंध में किए गए सभी लागतें, प्रभार और खर्चे जो देय राशि की वसूली के लिए लिए जा सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 03.01.2025 को जारी किया गया।

ऋण वसुली न्यायाधिकरण, चंडीगढ (डीआरटी-2)

वसली अधिकारी

# dhani

धनी सर्विसेज लिमिटेड

(CIN: L74110HR1995PLC121209)

**पंजीकृत कार्यालय**ः पांचवीं मंजिल, प्लॉट नंबर 108, आईटी पार्क, उद्योग विहार, फेज 1, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंडाहेडा, गुड़गाँव- 122016, हरियाणा दुरभाष: 0124-6685800

वेबसाईट: www.dhani.com, ई-मेल: support@dhani.com

असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग एतुद्वारा सृचित किया जाता है कि धनी सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की असाधारण आम बैठक

("ईजीएम") शनिवार, 25 जनवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("बीसी") / अन्य ऑडियो विजिबल यानि ("ओएबीएम") 03 जनवरी 2025 की ईजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों को संचालित करने की सुविधा, तकनीकों के माध्यम से आयोजित की जाएगी, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के नियमों, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के अंतर्गत आने वाले सभी उपयुक्त प्रावधानों, तथा कॉर्पोरेट कार्यं मंत्रालय ("एमसीए") तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रकों के अनुसार है। ईजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी । ईजीएम के लिए इच्छुक सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम नोटिस में निधारित प्रक्रिया का पालन करके ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

03, 2025 को उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेन www.dhani.com, www.skylinerta.com, https://evoting.kfintech.com,

एमसीए और सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिएवों के अनुपालन में, ईजीएम की सुचना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जनवरी

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, नियम 20 और सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 44 और लागू परिपत्रों के नियमों के अनुसार, कंपनी अपने सभी सदस्यों को ईजीएम नेटिस में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। और बी.सी. सुविधा और ई-बोर्टिंग प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की सेवाएं प्रदान की है । बीसी/ओएबीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और ई-बोर्टिंग की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम नेटिस में दी गई है। ईजीएम नोटिस में भौतिक रूप में या. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा लॉगिन क्रेडेशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश/ विवरण भी शामिल हैं, जिन्होंने कंपनी या अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है।

रिमोट ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम सुविधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

वासा/आएवाएम स ालक कर	https://emeetings.kfintech.com/
रिमोट ई-वोटिंग के लिए लिंक	व्यक्तिगत सदस्यों के लिए:
	https://www.evoting.nsdl.com/ (सीडीएसएल के साथ डीमेंट मोड में प्रतिभृतियों को रखना)
	https://www.cdslindia.com/ (एनएसडीएल के साथ डीमैंट मोड में प्रतिभृतियों को रखना) गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: https://evoting.kfintech.com
दूरस्थ ई-बोर्टिन या ईजीएम के दौरान मतदान करने के हकदार सदस्यों के निर्धारण की कट-ऑफ तिथि	शनिवार, 18 जनवरी, 2025 सदस्यों के मतदान अधिकार शनिवार,18 जनवरी, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
दूरस्य ई-बोर्टिग अवधि का प्रारंभ	बुधवार, 22 जनवरी, 2025 प्रातः 10.00 बजे।
manufactural or faced or not properly and accompany of the con-	WORKS AND AND AND AND ADDRESS AND

रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 साथं 5.00 बजे। 24 जनवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-बोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसके बाद सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोट नहीं कर सकतें। हालाँकि, जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है उन्हें ईजीएम के दौरान इंस्टा-पोल (ई-बोर्टिंग) सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोर्टिंग के ज़रिए अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम

में भाग ले सकता हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है या वे जो ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 18 जनवरी. 2025 को शेयर रखते हैं. वे नोटिस में बताए गए तरीके से यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

ईजीएम नोटिस और व्याख्यात्मक वक्तव्य में संदर्भित सभी दस्तावेज सदस्यों के निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ई-मेल पते को पंजीकत अदातन का तरीका : -

क) भौतिक रूप में शेयर रखने करने वाले सदस्य से अनुरोध हैं कि जिन्होंने कंपनी के साथ अपना इंमेल पता पंजीकृत / अदातन नहीं किया है, वे फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी और आरटीए की वेबसाइट https://dhani.com/ और https://www.skylinerta.com/pdf file/66 642181213 Form ISR-1.pdf, पर उपलब्ध) को पूरी तरह भरकर सहायक दस्तावेजों के साथ देकर अपना ईमेल पता पंजीकरण / अदातन करने के लिए स्काईलाइन फिनेशियल सर्विसेज प्राइबेट लिमिटेड, डी-153 ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को सर्वामट करें।

ख) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकत/अदातन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि ये अपना ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसपेंट के पास पंजीकृत/अदातन करें, जहां वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

मेसर्स सुकेश एंड कंपनी के प्रोपराइटर श्री सुकेश सैनी (सदस्यता नं.एफ 11688), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचीव, गुरुग्राम कों कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार ई-बोर्टिग प्रक्रिया के लिए स्क्रटिनाइज़र के रूप में कार्य करने के लिए नियक्त किया गया है।

वीसी/ओएवीएम या इलेक्ट्रॉनिक बोर्टिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य सुश्री सी शोभा आनंद केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, युनिट धनी सर्विसेज लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, विशीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, टेलि. नं. +91 40 6716 2222, टोल फ्री नं. 1-800-309-4001, ई-मेल E-evoting@kfintech.com पते पर भी लिख सकते हैं।

> बोर्ड के आदेशद्वारा धनी सर्विसेज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरत राम मेहर

कंपनी सचिव स्थान : गुरूग्राम सदस्यता नं. एफसीएस: 6039 दिनांक : 03 जनवरी 2025